



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 829 राँची, मंगलवार

28 अगस्त, 2018 (ई०)

#### गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

6 अगस्त, 2018 ई०।

पत्र संख्या-13/सी.-105/2018-4449

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक-06/08/2018 ई०।

विषय:-

डा० परवेज हयात, भा०पु०से० (1984), तत्कालीन महानिदेशक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि डा. परवेज हयात, भा.पु.से. (1984), तत्कालीन महानिदेशक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटकर दिनांक 11 जून, 2018 के पूर्वाह्न में राज्य में योगदान दिया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या-3446, दिनांक 21 जून, 2018 के आलोक में इन्होंने दिनांक 21 जून, 2018 के पूर्वाह्न में महानिदेशक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची का पदभार ग्रहण किया। इस बीच डा. हयात, भा.पु.से. दिनांक 11 मार्च, 2018 से 20 जून, 2018 तक प्रभार रहित अवधि में रहे जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(b)(i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 (ख) के तहत डा. परवेज हयात, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) के दिनांक-11 जून, 2018 से 20 जून, 2018 तक की प्रभार रहित अवधि की सेवा को अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. डा. हयात, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

ह./-(अस्पष्ट),

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----